

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र**

**दैनिक कार्य सूची**

**सोमवार, दिनांक 29 फरवरी, 2016 (फाल्गुन 10, 1937)**

**समय 10.30 बजे दिन**

## **1. प्रश्नोत्तर**

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

## **2. पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

- (i) क्रमांक 2256-मप्रविनिआ-2015, दिनांक 17 दिसम्बर, 2015
- (ii) क्रमांक 2267-मप्रविनिआ-2015, दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 तथा
- (iii) क्रमांक 58-मप्रविनिआ-2016, दिनांक 13 जनवरी, 2016

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अंतर सिंह आर्य, श्रम मंत्री, भवन एवं अन्य संनिर्माण (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) सहपठित मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम, 270 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखेंगे.

## **3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण**

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले में आवारा पशुओं द्वारा फसल को नष्ट किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, रतलाम एवं मंदसौर जिले में पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु कृषकों की जमीन का जबरन अधिग्रहण किये जाने की ओर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

## **4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा**

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 197-गंधवानी (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री उमंग सिंघार को विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

## **5. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2016 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)**

“राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.”

**भोपाल :**  
**दिनांक : 28 फरवरी, 2016**

**भगवानदेव ईसरानी**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा**